

Weekly One Liners 13th July to 19th of July 2020

IRDAI ने बीमा कंपनियों को कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की दी मंजूरी

सामान्य और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र की कंपनियों को कम अवधि के लिए 'Corona Kavach' स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को शुरू करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण) Insurance Regulatory and Development Authority of India-IRDAI) से मंजूरी मिल गई है। अल्पकालिक कोरोना" कवच "स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में कोरोनावायरस बीमारी के कारण होने वाले चिकित्सा खर्चों को कवर किया जाएगा। साथ ही पॉलिसी में अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान COVID-19 के कारण होने वाली किसी भी सहस्रगता) co-morbid) परिस्थिति को भी कवर किया जाएगा।

कोरोना कवच पॉलिसी के बारे में:

- IRDAI ने एक स्टैंडर्ड कोविड विशिष्ट उत्पाद (Covid specific product) तैयार किया है जो उद्योग में सार्वजनिक बीमा करने की बुनियादी स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
- पॉलिसी में 50,000 रुपये से लेकर 5,00,000 रुपये तक का कवर होगा।
- इस पॉलिसी का लाभ 18 से 65 वर्ष के बीच के व्यक्ति उठा सकते हैं।
- कोई भी व्यक्ति स्वयं, पति या पत्नी, माता-पिता, माता-पिता के साथ-साथ 25 वर्ष तक के निर्भर बच्चों के लिए कोरोना कवच पॉलिसी का लाभ उठा सकेंगे।

वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में तीसरे स्थान पर है भारत

- ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत तीसरा शीर्ष देश है। वार्षिक वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक(एमआरआई) रिपोर्ट अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार Cushman & Wakefield द्वारा जारी की गई है, ताकि यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत-में 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों को रैंक किया जा सके .

12 Months Subscription



BANK

Useful for Bank & Insurance Exams

TEST PACK

- प्रत्येक देश का मूल्यांकन चार प्रमुख क्षेत्रों में किया गया है: Bouncebackability, Conditions, Costs और Risks.
- चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका MRI 2020 में क्रमशः शीर्ष दो स्थानों में बरकरार हैं, जबकि भारत पिछले रिपोर्ट से एक स्थान ऊपर चला गया है और एमआरआई 2020 में तीसरा स्थान में है. एमआरआई 2020 की रिपोर्ट में वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र पर कोविड -19 के प्रभाव का विश्लेषण और देशों के अपने विनिर्माण क्षेत्रों को फिर से शुरू करने की क्षमता शामिल है, जब एक बार confinement measures को relaxed कर दिया जाता है और व्यापार सामान्य होने लगता है।

राष्ट्रीय समाचार

- नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन) AIM) द्वारा देश भर के स्कूली छात्रों के लिए "ATL App Development Module" लॉन्च किया गया। इन मॉड्यूल को भारतीय स्टार्टअप प्लेज़्मो (Plezmo) के सहयोग से लॉन्च किया गया है।
- केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगातार दूसरे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा है।
- ईरान ने भारत को चाबहार बंदरगाह से जहेदान, और अफगानिस्तान की सीमा के साथ लगने वाली रेलवे लाइन, चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा की है।
- भारत द्वारा मालदीव के 61 द्वीपों को 8 मिलियन अमरीकी डॉलर के नकद अनुदान के तहत बाहरी स्वास्थ्य उपकरण) outdoor fitness equipment) सौंप दिए गए हैं।
- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा पर 'प्रज्ञात'(Pragyata) दिशा निर्देश-जारी किए गए हैं।
- भारतीय रेलवे ने COVID-19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के प्रयास में एक नया अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 'पोस्ट कोविड कोच' विकसित किया है। भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई, रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला ने इस नए पोस्ट COVID कोच को विकसित किया है।
- रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जम्मू कश्मीर-J&K) में कटरा और रियासी को जोड़ने वाले भारत के पहले केबल रेल पुल) India's 1st cable-stayed rail bridge) "अंजी खाद पुल" के निर्माण की जानकारी साझा की है। इस पुल को कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड) KRCL) द्वारा विकसित किया जा रहा है।
- भारत में पहली पूरी तरह से विकसित की गई न्यूमोकोकल पॉलीसैकराइड कंजुगेट वैक्सीन न्यूमोनिया) वैक्सीन (को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया) DCGI) से मंजूरी मिल गई है।
- नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विकास परियोजना की शुरुआत की है। 44 लाख रुपये की परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ना है।
- The fourth edition of the All India Tiger Estimation 2018 has created the Guinness World Record for being the world's largest camera trap wildlife survey.

राज्य समाचार

- तेलंगाना राज्य पुलिस की महिला सुरक्षा विंग द्वारा कानूनी सहायता केंद्र, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, हैदराबाद के सहयोग से "CybHer" अभियान शुरू किया गया है।
- स्ट्रीट वेंडर के लिए शुरू की गई आत्मनिर्भर निधि प्रधानमंत्री) स्वनिधि योजना(के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में शीर्ष स्थान पर है।
- मध्य प्रदेश सरकार "टोको-रोको" नामक एक विशेष अभियान शुरू करने की योजना बना रही है। इस अभियान के अंतर्गत, राज्य सरकार उन लोगों को लक्षित करेगी जो मास्क नहीं पहनते हैं।
- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा COVID-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई लोक-अदालत का आयोजन किया गया है।
- उत्तराखंड सरकार ने 'Waste to Energy' नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है. उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UEPPCB) के अनुसार, इस कचरे से 5 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है और प्रदूषण पर अंकुश लग सकता है.

अंतरराष्ट्रीय समाचार

- सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी द्वारा सिंगापुर में हुए आम चुनावों में जीत हासिल करने के बाद ली ह्सियन लूंग) Lee Hsien Loong) एक बार फिर सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए हैं।
- भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) Foreign direct investment - FDI) के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। आंकड़ों के अनुसार, भारत ने 120 परियोजनाओं में निवेश किया और ब्रिटेन में 5,429 नए रोजगार सृजित किए
- आंद्रेज डूडा को एक फिर पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है।
- चीन ने अपने Xichang सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट के जरिए "APSTAR-6D" दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर लिया।
- ट्यूनीशिया के प्रधान मंत्री एलिस फाखफाख) Elyes Fakhfakh) ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है।
- भारतीय मूल के चंद्रिकाप्रसाद 'Chan' संतोखी को दक्षिण अमेरिकी देश "सूरीनाम" का राष्ट्रपति चुना गया है।
- Pakistan and China have signed an agreement for the 700 MW Azad Pattan hydel power project on the Jhelum river in Sudhoti district of Pakistan Occupied Kashmir (PoK).
- पाकिस्तान और चीन ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के सुधोटी जिले में झेलम नदी पर 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- Rose Christiane Ossouka Raponda को Gabon की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है. वह देश की 12 वीं पीएम हैं और Julien Nkoghe Bekale का स्थान ग्रहण करेंगी.

समझौता

- यूनिसेफ इंडिया ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री(फिड्की) , सोसिओ इकनोमिक-डेवलपमेंट फाउंडेशन (SEDF) के साथ संयुक्त रूप से यूनिसेफ के #Reimagine अभियान को तैयार करने के लिए समझौता किया है।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण) AAI) और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम) Defence Public Sector Unit) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड) BEL) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू)पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- यूनिसेफ इंडिया ने देश भर के युवाओं को कैरियर परामर्श देने के लिए SAP इंडिया के साथ साझेदारी की है। दोनों के बीच हुई इस साझेदारी का उद्देश्य COVID-19 के वर्तमान कल और इसके बाद के समय में युवाओं के रोजगार कौशल में सुधार करना है। इस पहल के तहत, यूनिसेफ ने भारत के बेरोजगार युवाओं को डिजिटल शिक्षा के साथ साथ-व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए YuWaah (जेनरेशन अनलिमिटेड (के साथ सहयोग किया है।

बैंकिंग /अर्थव्यवस्था /व्यापार समाचार

- नाबार्ड ने अपनी जल विकास परियोजनाओं के 2,150 लाभार्थियों को वित्त प्रदान करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए 5,000 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त योजना की घोषणा की है।
- नाबार्ड ने प्राथमिक कृषि साख समितियों (Primary Agricultural Credit Societies) को बहु सेवा केंद्रों में बदलने के लिए 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
- विश्व में पेमेंट टेक्नोलॉजी में सबसे आगे Visa ने फेडरल बैंक के साथ बैंक के कार्डधारकों के लिए "Visa Secure" प्रोग्राम शुरू करने के लिए समझौता किया है।
- गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने "Google For India Digitization Fund" के लिए 10 बिलियन डॉलर की राशि देने की घोषणा की है। इस फंड के अंतर्गत, गूगल भारत में आनेवाले-5-7 वर्षों में लगभग 75,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा।
- क्वालकॉम वेंचर्स) Qualcomm Ventures) द्वारा जियो प्लेटफार्मों में 0.15% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है।
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग) Competition Commission of India-CCI) ने एकेसो कंपनी पीटीई लिमिटेड (Aceso) द्वारा हेल्थकेयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड (HCG) कंपनी में अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। CCI ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 (1) के तहत अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
- IT दिग्गज गूगल ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड) RIL) के जियो प्लेटफार्मों की 7.73% हिस्सेदारी 33,737 करोड़ रुपए में खरीदी है।

नियुक्तियां

- भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा हेमांग अमीन को अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है। वह राहुल जौहरी का स्थान लेंगे जिन्होंने हाल ही में बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पद से इस्तीफा दे दिया था।
- भारत सरकार द्वारा डॉ. विधु पी. नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है।
- भारत की सबसे धनी महिला, रोशनी नाडर मल्होत्रा नोएडा स्थित आईटी कंपनी, HCL टेक्नोलॉजीज की नई अध्यक्ष बनीं हैं।
- भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है।
- भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम दुर्ईस्वामी को बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है।
- एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank) द्वारा मौजूदा चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को एडीबी का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

रक्षा समाचार

- रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) द्वारा सशस्त्र बलों को सैन्य सामग्री खरीदने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस निर्णय के बाद, सशस्त्र बल अब अपनी आपातकालीन परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 300 करोड़ रुपये तक की तात्कालिक सैन्य सामग्री की खरीद से जुड़े मामलों को आगे बढ़ाने मामलों में सक्षम होंगे।
- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है जो IL 76 विमान से 7-टन वजन तक की सैन्य सामग्री गिराने में सक्षम है।

पुरस्कार

- एनटीपीसी लिमिटेड को प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से पुरस्कृत किया गया है। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी को कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार
- अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडोक (Kezang D Thongdok) को उनकी शोर्ट डॉक्यूमेंट्री "Chi Lupo" के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है।
- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया है।
- छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गाँव योजना और अन्य प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर "Elites Excellence Awards-2020" से सम्मानित किया गया है।

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के प्रमुख कैलाशविद्वि शिवन को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स (IAA) के वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया किया है।
- ATK-मोहन बागान क्लब के अनुसार, हॉकी लीजेंड गुरबक्स सिंह और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पलाश नंदी को इस साल के मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा।
- सचिन अवस्थी को लंदन में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स 2020 के लिए आयोजित एक वेबिनार में "Top Publicist" पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- रेल इन्फ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स (RIMBDA) द्वारा वेद प्रकाश दुदेजा को साल 2020 के प्रतिष्ठित 'इन्फ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- टाटा समूह के चेयरमैन, नटराजन चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष जिम ताइक्लेट (Jim Taiclet) को US-इंडिया बिजनेस काउंसिल (USIBC) ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है।
- इंग्लैंड के 22 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रैशफोर्ड मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं।
- कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (CPJ) ने इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स 2020 के विजेताओं की घोषणा की है, जिसमें बांग्लादेश से शाहिदुल आलम, ईरान से मोहम्मद मोसेद, नाइजीरिया से डापो ओलरुन्योमी और रूस से स्वेतलाना प्रोकोपायवा शामिल हैं।

बैठक एवं सम्मलेन

- रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने "एयरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी" सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन को 'आत्म निर्भरत भारत मिशन' के साथ भारत को सशक्त बनाने के विषय पर आयोजित किया गया था। इसे तमिलनाडु डेवलपमेंट एंड प्रमोशन सेंटर (TNTDPC), सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैनुफैक्चरर्स (SIDM) और भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।

TEST SERIES

English



J&K BANK

PRIME

90 Total Tests | eBooks

रैंक और रिपोर्ट

- नीति आयोग द्वारा सतत विकास, 2020 पर भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय-राजनीतिक फोरम में प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट का शीर्षक **"Decade of Action: Taking SDGs from Global to Local"** है, और यह भारत में 2030 एजेंडा को अपनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

खेल समाचार

- लुईस हैमिल्टन (मर्सिडीज ब्रिटेन-रेसर(ने ऑस्ट्रिया में स्पीलबर्ग के रेड बुल रिंग में हुई **Styrian Grand Prix 2020** जीत ली है। इसमें वाल्टेरी बोटासफ्रिनलैंड-मर्सिडीज) रेसर(दूसरे स्थान पर रहे, जबकि मैक्स वेरस्टैपेन रेड) बुल -बेल्जियम रेसर(तीसरे स्थान पर रहे।
- एशियाई क्रिकेट परिषद) **Asian Cricket Council**) ने Covid-19 महामारी के मद्देनजर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को जून 2021 तक स्थगित करने की घोषणा की है। श्रीलंका 2021 में एशिया कप की मेजबानी करेगा जबकि पाकिस्तान को 2022 में मेजबानी का अधिकार दिया गया है।
- Socceroos (ऑस्ट्रेलिया (फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान माइल जेडिनक ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है।
- सेनेगल और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति) IOC) ने 2022 में डैकर में होने वाले युवा ओलंपिक खेलों को स्थगित करने के फैसले पर पारस्परिक"रूप से सहमति "जताई है। युवा ओलंपिक खेल अब साल 2026 में आयोजित किए जाएंगे।
- स्पेनिश पेशेवर फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने मैड्रिड के Estadio Alfredo Di Stefano में Villarreal को 2-1 से हरा का 34वां ला लीगा चैंपियंस का ताज अपने नाम कर लिया है।

पुस्तके एवं लेखक

- रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई 'A Song of India' पुस्तक का विमोचन 20 जुलाई 2020 को किया जाएगा। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की इंप्रिंट पफिन बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है।
- स्टीफन किंग द्वारा लिखी गई चार कहानियों का संग्रह "If It Bleeds" नामक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक को हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया।
- अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा 'The Tangams: An Ethnolinguistic Study Of The Critically Endangered Group of Arunachal Pradesh' नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक अरुणाचल प्रदेश की विलुप्त होती समुदाय की भाषा टंगम पर आधारित है, जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के कोगिंग गांव में रहते हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- IIT कानपुर ने स्मार्टफोन ऑपरेटिंग हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणुशोधन हेल्पर) SHUDH) नामक एक अल्ट्रावायलेट (यूवी) सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है। इस डिवाइस में 15 वाट की 6 यूवी लाइट्स हैं जिन्हें दूर से ही व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है।
- दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने दुनिया की सबसे सस्ती COVID-19 डायग्नोस्टिक किट "Corosure" विकसित की है।
- Indian Institute of Technology Madras (IIT-M) start-up Modulus Housing, has developed a portable hospital unit called 'MediCAB'. It was launched recently in Wayanad District of Kerala.
- IIT मद्रास (IIT-M) स्टार्ट-अप मोडुलस हाउसिंग, ने 'MediCAB' नामक एक पोर्टेबल अस्पताल यूनिट विकसित की है। इसे हाल ही में केरल के वायनाड जिले में लॉन्च किया गया था।

महत्वपूर्ण दिन

- संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है।
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 15 जुलाई को विश्व स्तर पर World Youth Skills Day यानि विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस हर साल 17 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया।

निधन

- जाने माने-गुजराती कार्टूनिस्ट अवाद बिन हसन जामी का निधन।
- इंग्लैंड की 1966 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य जैक चार्लटन (Jack Charlton) का निधन।
- पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गुजराती पत्रकार, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक नागिदास संघवी का निधन।
- प्रसिद्ध मृत्तिका कला) Ceramic art) आर्टिस्ट, ज्योत्सना भट्ट का निधन।
- डच फुटबॉल लीजेंड विम सूर्बिएर) Wim Suurbier) का निधन। वह नीदरलैंड्स के 1970 के दशक में दो विश्व कप फाइनल खेलने वाली टीम के प्रमुख सदस्य थे।
- हॉकिन्स कुर्सी) Hawkins Cookers) के चेयरमेन ब्रह्म वासुदेव का निधन।
- महाराष्ट्र की पहली महिला राज्य निर्वाचन आयुक्त) State Election Commissioner) नीला सत्यनारायण का निधन।
- आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदासजी स्वामीश्री का COVID-19 के कारण निधन। वह स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख थे। वह सन्यासी आचार्यों के वंश में पाँचवें उत्तराधिकारी थे। वह वर्तमान में श्री स्वामीनारायण पीठ के आचार्य थे।

विविध समाचार

- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) परिसर में पीपल के पौधों का रोपण करके केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है।
- रेल मंत्रालय 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर काम कर रहा है। साथ ही, रेल मंत्रालय ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कई बड़ी पहल की है।
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने अपने 39 वें स्थापना दिवस अवसर पहली 'डिजिटल चौपाल' का आयोजन किया।
- पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज और क्रिकेट दिग्गज ब्रेट ली को SportsAdda ने अपना नया ब्रांड एंबेसडर बनाया है।
- GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट (GHIAL) ने COVID-19 के बीच सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है।
- हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) द्वारा "स्वच्छता पखवाड़ा" का आयोजन किया गया।
- असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने धेमाजी जिले में स्थित पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य में तब्दील किए जाने की घोषणा की है।
- बॉलीवुड अभिनेत्री, प्रियंका चोपड़ा जोनास और बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) 2020 के एंबेसडर के रूप में चुना गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- सेनेगल की राजधानी: डकार.
- सेनेगल मुद्रा: पश्चिम अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक.
- अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मुख्यालय: लॉजेन, स्विट्जरलैंड.
- अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष: थॉमस बाख.
- कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नेशनल बैंक के अध्यक्ष: जी आर.
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर: एडमिरल डी के जोशी.
- केंद्रीय रेल मंत्री: पीयूष गोयल.
- कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक: संजय गुप्ता.
- कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र.
- केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री: रमेश पोखरियाल 'निशंक'.
- मालदीव के राष्ट्रपति: इब्राहिम मोहम्मद सोलीह.
- मालदीव की राजधानी: माले; मालदीव की मुद्रा: मालदीव रूफिया.
- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष: सुभाष सी. खुंटिया.
- प्लेज़मो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी: अमोल पलशीकर.

- नीति आयोग के सीईओ (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया): अमिताभ कांत.
- पाकिस्तान के प्रधान मंत्री: इमरान खान.
- पाकिस्तान के राष्ट्रपति: आरिफ अल्वी.
- पाकिस्तान की राजधानी: इस्लामाबाद.
- चीन की राजधानी: बीजिंग; चीन की मुद्रा: रेनमिनबी.
- चीन के राष्ट्रपति: शी जिनपिंग.
- सूरीनाम की राजधानी: परमारिबो.
- सूरीनाम की मुद्रा: सूरीनाम डॉलर.
- ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति: कैस सैयद; ट्यूनीशिया की राजधानी: ट्यूनिस.
- चीन एयरोस्पेस विज्ञान और प्रौद्योगिकी कॉर्प मुख्यालय: बीजिंग, चीन.
- चीन एयरोस्पेस विज्ञान और प्रौद्योगिकी कॉर्प अध्यक्ष: जू कियान्ग.
- पोलैंड की राजधानी: वारसॉ; मुद्रा: पोलिश ज़्लॉटी.
- कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नेशनल बैंक के अध्यक्ष: जी आर.
- फेडरल बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ: श्याम श्रीनिवासन.
- तुर्कमेनिस्तान की राजधानी: अश्गाबात; मुद्रा: तुर्कमेनिस्तान मैनाट.
- World Humanitarian Drive (WHD) के संस्थापक और अध्यक्ष: अब्दुल बासित सैयद.
- World Humanitarian Drive (WHD) मुख्यालय: लंदन, यूनाइटेड किंगडम.
- इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स (IAA) के संस्थापक: डॉ थियोडोर वॉन कर्मन.
- इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स (IAA) मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस.
- छत्तीसगढ़ के सीएम: भूपेश बघेल; छत्तीसगढ़ के राज्यपाल: अनुसुइया उइके.
- तमिलनाडु के राज्यपाल: बनवारीलाल पुरोहित.
- रोटरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष: होलगर सैक.
- यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक: हेनरीटा एच. फोर.
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष: अरविंद सिंह.
- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक: एमवी गौतम.
- फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अध्यक्ष: संगिता रेड्डी.
- आरआईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक: मुकेश डी. अंबानी.
- गूगल मुख्यालय: कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका.
- गूगल के सीईओ: सुंदर पिचाई.
- प्रतियोगिता आयोग के अध्यक्ष: अशोक कुमार गुप्ता.
- क्वालकॉम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ): स्टीव मोलेनकोफ.
- गूगल के CEO: सुंदर पिचाई; मुख्यालय: कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका.

- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री: भूपेश बघेल; राज्यपाल: अनुसुइया उइके
- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री: शिवराज सिंह चौहान; राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल.
- तेलंगाना के मुख्यमंत्री: के चंद्रशेखर राव; राज्यपाल: तमिलिसाई साउंडराजन.
- संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय: न्यूयॉर्क, यूएसए; स्थापित: 24 अक्टूबर 1945
- एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं.
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय मुख्यालय: हेग, नीदरलैंड.
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अध्यक्ष: चिली इबो-ओसूजी.
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय स्थापना: 2002.
- संयुक्त राष्ट्र के महासचिव: एंटोनियो गुटेरेस.
- असम की राजधानी: दिसपुर.
- असम के राज्यपाल: जगदीश मुखी.
- केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री: हर्षवर्धन.
- गैबोन कैपिटल: लिब्रेविल; गैबॉन की मुद्रा: मध्य अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक.

